




# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 475]

नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 17, 1983/अग्रहायण 26, 1905

No. 475] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 17, 1983/AGRAHAYANA 26, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

विद्युत मंत्रालय  
(राज्य विभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली 17 दिसम्बर, 1983

सं 292/83-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क

सा.का नि 894(2) —ने दी गई सूची में उल्लिखित उत्पादों के लिए, 1944 के नियमों के अन्तर्गत (1) द्वारा प्रदत्त शर्तियाँ तथा प्रयोग करते हुए, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क और नगरीय अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं 28क की उपमद (3) के अंतर्गत आने वाले ऐसी तांब की पाइप और ट्यूबों का, जिनका भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को ऐसे ताप विद्युत उपकरणों के निर्माण के लिए प्रदान किया जाता है जो किसी ताप विद्युत केंद्र के परिचालन में उपयोग किए जाने हैं, उक्त अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत उक्त पर उद्बलगीय समस्त उत्पाद-शुल्क में छूट दी गई है।

परन्तु यह तब जब कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का महाप्रबंधक —

(1) यह प्रमाणित करता है कि ऐसी तांब की पाइप और ट्यूब ऐसे ताप विद्युत उपकरणों के निर्माण के लिए

लिए उपयुक्त है जो किसी ताप विद्युत केंद्र की प्रारंभिक स्थापना में उपयोग किए जाने हैं

(2) ऐसी तांब की पाइप और ट्यूबों की निकासी के समय वह वचनबद्ध करता है कि वह उक्त तांब की पाइपों और ट्यूबों की निकासी की तारीख से एक वर्ष के भीतर समाप्त केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी का यह समाधान करेगा कि उनका उक्त प्रयोजन के लिए वास्तव में उपयोग किया गया है और

(3) भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को इस बात के लिए वाबद्ध करने हुए एक बरपत्र निम्नादिष्ट करना है कि वह ऐसी तांब की पाइप और ट्यूबों की बावत जिनके बारे में समाप्त केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी के समाधान-प्रद रूप में यह साबित नहीं होता है कि वे पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए वास्तव में प्रयोग की गई हैं, मांग किए जाने पर उतनी रकम का भुगतान करेगा जो इस अधिसूचना में अतिरिक्त छूट के न दिए जाने की दशा में, उक्त तांब की पाइप और ट्यूबों पर उद्बलगीय शुल्क के बराबर हो।

[फा सं 335/7/83-टीआरए]

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

## NOTIFICATIONS

New Delhi, the 17th December, 1983

## NO. 292/83-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 894(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts copper pipes and tubes, falling under sub-item (3) of Item No. 26A of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), and supplied to Bharat Heavy Electricals Limited for the manufacture of thermal power equipments to be used in the initial setting up of a thermal power station, from the whole of the duty of excise leviable thereon under section 3 of the said Act:

Provided that the General Manager of Bharat Heavy Electricals Limited —

- (i) certifies that such copper pipes and tubes are required for the manufacture of thermal power equipments to be used in the initial setting up of a thermal power station;
- (ii) gives an undertaking at the time of clearance of such copper pipes and tubes that he will satisfy the proper officer of the Central Excise within one year of the date of clearance of the said copper pipes and tubes, that the same have actually been used for the said purpose; and
- (iii) executes a bond binding Bharat Heavy Electricals Limited, to pay, on demand, in respect of such copper pipes and tubes as are not proved to the satisfaction of the proper officer of the Central Excise to have actually been used for the aforesaid purpose, an amount equal to the duty leviable

on the said copper pipes and tubes but for the exemption contained in this notification.

[F. No. 335/7/83-TRU]

## सं. 292-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा. का. नि. 895(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 81/83-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1983 का विस्तारित और संशोधित करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 95 और उसमें संबंधित प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टि अंतर्स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"96. सं. 292/83-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 17 दिसम्बर, 1983।"

[फा सं 335/7/83-टीआरयू]

के एम. वेंकटागिरि, अवर सचिव

## NO. 293/83-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 895(E).—In exercise of the powers conferred by rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 81/83-Central Excises, dated the 1st March, 1983, namely :—

In the Schedule to the said notification, after Sl No. 95 and the entry relating thereto, the following Sl. No. and entry shall be inserted, namely :—

"96. No. 292/83-Central Excises, dated the 17th December, 1983."

[F. No. 335/7/83-TRU]

K. S. VENKATAGIRI Under Secy.